

girls who
CODE

Girls Who Code At Home

बालिका दिवस मनाएं!

गतिविधि अवलोकन

इस सप्ताह हम एक विशेष गतिविधि लेकर आए हैं! Girls Who Code और Apple ने साथ मिलकर #SisterhoodStory लॉन्च किया है; यह बालिका दिवस का एक डिजिटल उत्सव है जो सभी स्थानों के लोगों को लड़कियों, महिलाओं और उनका जीवन बेहतर बनाने वाले समुदायों का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता है। इस पाठ में हम आपको एक सम्मान पोस्ट बनाने के चरण दिखाने जा रहे हैं; इस पोस्ट को आप सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों और परिजनों के साथ साझा कर सकते हैं।

5 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक, आप Girls Who Code और Today at Apple के साथ एक सप्ताह के लिए निःशुल्क यथार्थभासी (वर्चुअल) प्रोग्रामिंग के लिए जुड़ सकते हैं, जिसमें बेकी जी. (Becky G.), किरण गांधी (Kiran Gandhi), एश्ली बर्च (Ashly Burch), रेना नोरिएगा (Reyna Noriega) जैसे कई कलाकारों के साथ व्यावहारिक रचनाशील सत्रों से लेकर सितारों जड़ी प्रेरक वार्ताएं होंगी। [यहां साइन अप करें।](#)

सामग्रियां

- मोबाइल फोन या टैबलेट
- सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम (Instagram), ट्विटर (Twitter), फ़ेसबुक (Facebook))
- आपकी सम्मान पोस्ट के लिए एक चित्र

#SisterhoodStory

वुमन इन टेक स्पोर्टलाइट: ब्रिना ली (Brina Lee)



ब्रिना ली इंस्टाग्राम (Instagram) में पहली महिला इंजीनियर थीं। उन्होंने UC सेन डिएगो से कम्युनिकेशंस में अंडरग्रेजुएट डिग्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री ली है। ब्रिना ने क्विप (Quip) में फुल-स्टैक इंजीनियर के रूप में काम करते हुए इंस्टाग्राम (Instagram) वीडियो समेत विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर काम किया है। अब वे हैमूल (Hamul) नामक एक गेमिंग कंपनी की सह-संस्थापक हैं।

ब्रिना ने अपनी पहली कोडिंग कक्षा हाई स्कूल में ली थी और उन्हें वह बोरिंग लगती थी, तब तक जब तक उन्होंने वेब कोडिंग को नहीं जाना।

ब्रिना ने अपना करियर मार्केटिंग में शुरू किया था। उन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट बार-बार बनाई, और हर बार नए सिरे से। ब्रिना ने C# की एक ऑनलाइन कक्षा ली, और तभी उन्हें एक विचार सूझा। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स डिग्री की ज़रूरी शत पूरी कीं और Yahoo! में यूजर एक्सपीरिएंस डिज़ाइन (UX) की इंटरनशिप हासिल कर ली। उन्होंने Google में भी इंटरनशिप की, जहां उन्होंने एक माय मैप्स (My Maps) विशेषता बनाई, और उन्होंने Facebook में भी इंटरन के रूप में काम किया, जहां उन्होंने टाइमलाइन (Timeline) पर काम किया और आगे चल कर वहां पूर्णकालिक काम किया। ब्रिना ने पोस्ट एडिटिंग टूल बनाया, कई वृद्धि विशेषताएं बनाई, और उन्होंने पूरी इंस्टाग्राम एंड्रॉइड (Instagram Android) एप के विभिन्न भागों, जैसे एक्टिविटी फ्रीड, सर्च एंड एक्स्प्लोर, और इंस्टाग्राम डायरेक्ट (Instagram Direct) पर काम किया है।

इस लेख में ब्रिना ने बताया है कि करियर बदलना कितना कठिन होता है। उन दिनों को याद करते हुए ब्रिना कहती हैं, “तकनीक करियर अपनाना आसान नहीं है। मैं तो कहूंगी कि यह बहुत, बहुत कठिन है। मुझे खुद में ज़रा सा आत्मविश्वास महसूस होने में भी दो वर्ष से अधिक का समय लग गया था। आपको अपने अंदर जुनून को भड़काने वाली बातें ढूँढने के लिए कई चीज़ें आजमानی पड़ती हैं। जब मैं कोडिंग के जरिए समस्याएं हल करने के एक-एक कदम नज़दीक पहुंचती जा रही थी, तो हर बार मुझे जुनून की आग और तेज़ होती महसूस हो रही थी।

झलक

कोडिंग में केवल महान होने की तुलना में एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होना अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय निकाल कर इस बारे में सोचें कि ब्रिना के निर्णय, बहादुरी की मूल महत्व से किस प्रकार संबंध रखते हैं। अपने विचार दोस्तों या परिजनों से साझा करें।



वीरता

ब्रिना ने एक अलग करियर मार्ग आजमाने की छलांग लगाकर बहादुरी दिखाई। सोचें कि आपने छलांग लगाकर ऐसी बहादुरी कब दिखाई थी?

अपनी #SISTERHOODSTORY साझा करें




1. 📸 (अपनी सारी Zoom सेल्फीज़ और Code from Home तस्वीरों को पीछे छोड़ते हुए) अपनी फोटो एल्बम खंगालें और उस लड़की, महिला, या समुदाय की एक शानदार तस्वीर ढूँढ़ निकालें जो आपको प्रेरित करती या करता है – दोस्त, परामर्शदाता, आदर्श व्यक्ति, Girls Who Code के विद्यार्थी, आपकी टीम के साथी।

2. 📝 अपनी #SisterhoodStory के बारे में, आपने जिसे चुना उसके बारे में, और वह आपके लिए रॉकस्टार क्यों है इस बारे में एक संक्षिप्त वर्णन लिखें।

3. 📅 10/11 अक्तूबर को इन सभी चीज़ों को #SisterhoodStory @GirlsWhoCode के साथ अपने सभी सोशल चैनल्स पर पोस्ट करके उसका गुणगान करें।

***बोनस: अपने पोस्ट्स को मज़ेदार बनाने के लिए, इंस्टाग्राम (Instagram) के फ़िल्टर्स और ग्रेडिएंट्स आजमाएं, और अपनी कहानियों में हमारे कुछ #SisterhoodStory स्टिकर्स जोड़ें (इंस्टाग्राम गिफ़ी (Instagram gif) में GWC, Girls Who Code, या Sisterhood खोजें)। प्रेरणा के लिए नीचे दिए गए उदाहरण देखें!

प्रेरणा: सैंपल पोस्ट्स



सैंपल पोस्ट्स

क्या आपको नहीं सूझ रहा कि क्या लिखें या किसका सम्मान करें? कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना। आप साझा की जा सकने वाली सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं जिसे [Instagram](#) और [Twitter](#) के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यदि आप अपनी खुद की प्रति नहीं लिखना चाहते, तो कुछ ऐसा आजमाएं:

मुझे #DayoftheGirl को और पूरे साल @girlswhocode बहनापा का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। लड़कियां भी कोड करती हैं! #SisterhoodStory



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र) किसे अपनी #SisterhoodStory साझा करनी चाहिए?

उ) किसी को भी और हर किसी को। हम दुनिया भर के सभी लिंगों और पृष्ठभूमियों वाले लोगों को हमारे साथ उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

प्र) मुझे मेरी #SisterhoodStory कब पोस्ट करनी चाहिए?

उ) बालिका दिवस (Day of the Girl) रविवार, 11 अक्टूबर को है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ बातचीत से जुड़ने को #DayoftheGirl के साथ पोस्ट करने के लिए यह दिन अच्छा है। Girls Who Code में बहनापा का उत्सव मनाने के लिए एक दिन बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, इसलिए हम 5 अक्टूबर से शुरू करते हुए पूरे सप्ताह पोस्ट करेंगे।

प्र) मुझे मेरी #SisterhoodStory किस प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करनी चाहिए?

उ) हम हमारा अधिकतर समय इंस्टाग्राम (Instagram) पर बिता रहे हैं, पर हम ट्विटर (Twitter), फ़ेसबुक (Facebook), लिंकडइन (Linkedin), और टिकटॉक (TikTok) पर भी आपके पोस्ट्स का इंतज़ार करेंगे।

प्र) #SisterhoodStory सत्रों के लिए मैं कहां साइन अप कर सकती हूं?

उ) बहनापा स्टोरी सत्रों हेतु साइन अप करने के लिए [यहां क्लिक करें](#)।